



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 18, 1984/ज्येष्ठ 28, 1906

No. 16]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 18, 1984/JYAISTHA 28, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 18 जून, 1984

अधिसूचनाएं

आ० अ० 31(अ).—राष्ट्रपति ने तारीख 18 जून, 1984 के
भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना द्वारा मिज़ोरम संघ राज्यक्षेत्र
की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे इस संघ
राज्यक्षेत्र से राज्य सभा के लिए एक सदस्य निर्वाचित कर दें ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
की धारा 39 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित तारीखें
नियत करता है :—

(क) नाम निर्देशन करने के लिए 25 जून, 1984 (सोमवार)
अन्तिम तारीख

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 26 जून, 1984 (मंगलवार)

(ग) अर्हताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख 28 जून, 1984 (बृहस्पतिवार)

(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक 5 जुलाई, 1984 (बृहस्पतिवार)
हुआ तो मतदान होगा

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व मतदान 9 जुलाई, 1984 (सोमवार)
पूरा कर लिया जाएगा ।

[सं० 318/मिज़ोरम/84(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 18th June, 1984

NOTIFICATIONS

O.N. 31(E).—Whereas the President has, by
notification published in the Gazette of India on
the 18th June, 1984, called upon the elected mem-
bers of the Legislative Assembly of the Union Ter-
ritory of Mizoram to elect to the Council of States
one member from that Union Territory;

Now, therefore, in exercise of the powers con-
ferred by sub-section (1) of section 39 of the Re-
presentation of the People Act, 1951, the Election

Commission hereby appoints with respect to the said election :—

- (a) 25th June, 1984 (Monday), as the last date for making nominations;
- (b) 26th June, 1984 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) 28th June, 1984 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) 5th July, 1984 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary be taken; and
- (e) 9th July, 1984 (Monday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 318/MIZ/84(1)]

आ० अ० 32(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 18 जून, 1984 की अधिसूचना सं० 318/मिजोरम/84(1) के अनुसार में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।

[सं० 318/मिजोरम/84(2)]

O.N. 32(E).—In exercise of the powers conferred by section 56 of the Representation of the people Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 A.M. to 2.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 318/MIZ/84 (1), dated the 18th June, 1984.

[No. 318/MIZ/84(2)]

आ० अ० 33 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के परामर्श से, अपनी तारीख 18 जून, 1984 की अधिसूचना सं० 318/मिजोरम/84(1) के अनुसार में, राज्य

सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए सचिव, विधान सभा, मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदामिहित करता है।

[सं० 318/मिजोरम/84 (3)]

O.N. 33(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the people Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Union Territory of Mizoram, hereby designates Secretary, Legislative Assembly, Mizoram, to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 318/MIZ/84 (1), dated the 18th June, 1984.

[No. 318/MIZ/84(3)]

आ० अ० 34(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, अब सचिव, मिजोरम विधान सभा को तारीख 18 जून, 1984 की अपनी अधिसूचना सं० 318/मिजोरम/84(1) द्वारा राज्य सभा के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की उसकी कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए नियुक्त करता है।

[सं० 318/मिजोरम/84(4)]

आदेश से,
आर० पी० भल्ला, सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

O.N. 34(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints Under Secretary, Legislative Assembly Mizoram, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 318/MIZ/84(1), dated the 18th June, 1984, in the performance of his functions.

[No. 318/MIZ/84(4)]

By Order,
R. P. BHALLA, Secy.
To the Election Commission of India.